



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 461]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904

No. 461]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1982

का०आ० 725 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम,
1906 (1906 का 3) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए यह अधिसूचित करती है कि—

(क) निम्नलिखित शक्ति मूल्य के सिक्के भी तबम् एशियाई क्षेत्र
दिल्ली, 1982 के संस्मरण में केन्द्रीय सरकार के प्राधिकाराधीन जारी किए
जाने के एक साल में बनाए जाएंगे, यथातः—

- एक सौ रुपये के
- बस रुपये के
- पच्चीस पैसे के
- बस पैसे के

(ख) उपरोक्त शक्ति मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विभागों बिना हत
और संरचना के अनुरूप होंगे, यथातः—

सिक्के का शक्ति मूल्य	आकार और बाहरी व्यास	सिक्के की संख्या	धातु संरचना
एक सौ रुपये के	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	धतुवक मिश्र धातु चाँदी 50 प्रतिशत ताँबा 40 प्रतिशत रूपा 5 प्रतिशत जस्ता 5 प्रतिशत
बस रुपये के	वृत्ताकार 39 मिलीमीटर	180	ताम्र-रूपा ताँबा 75 प्रतिशत रूपा 25 प्रतिशत
पच्चीस पैसे	वृत्ताकार 19 मिलीमीटर	100	ताम्र-रूपा ताँबा 75 प्रतिशत रूपा 25 प्रतिशत
बस पैसे	अर्धवृत्ताकार (12 अर्धवृत्त) 25 मिलीमीटर धार पार अर्धवृत्त		एलुमिनियम-मैंगनीशियम मैंगनीशियम 3.5 % से 4% एलुमिनियम शेष

विज्ञापन :**एक सौ रुपये**

मुख्यभाग:—सिक्के के मुख्यभाग पर अशोक स्तंभ के सिंह गुम्बज के साथ "सत्यमेव जयते" मार वाक्य नीचे अंकित होगा और उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "India" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "100" अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "रुपए" शब्द और दायें निचले भाग में "Rupees" शब्द लिखा होगा।

पृष्ठ भाग:—सिक्के के इस भाग पर "IX ASIAN GAMES, DELHI, 1982" अंकित होगा। सिक्के के मध्य में नवम एशियाई खेल, 1982 का प्रतीक अर्थात् "जतर मंजर" संस्मारक का रूपण होगा जिसके साथ एशियाई खेल के प्रतीक के रूप में सूर्य, संप्रतीक के ऊपर अंकित होगा तथा जिसके बायें भाग में "नवम एशियाई खेल" और दायें भाग में "NINTH ASIAN GAMES" अंकित होगा। "DELHI" शब्द और "1982" वर्ष प्रतीक के नीचे दर्शाया जाएगा।

दस रुपये :

मुख्य भाग:—सिक्के के मुख्य भाग पर अशोक स्तंभ के सिंह गुम्बज के साथ "सत्यमेव जयते" मार वाक्य नीचे अंकित होगा और उसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" शब्द और दायें ऊपरी भाग में "India" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "10" अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा और उसके बायें निचले भाग में "रुपए" शब्द और दायें निचले भाग में "Rupees" शब्द लिखा होगा।

पृष्ठ भाग:—सिक्के के इस भाग पर "IX ASIAN GAMES DELHI, 1982" अंकित होगा। सिक्के के मध्य में नवम एशियाई खेल, 1982 का प्रतीक अर्थात् "जतर मंजर" संस्मारक का रूपण होगा जिसके साथ एशियाई खेल के प्रतीक के रूप में सूर्य, संप्रतीक के ऊपर अंकित होगा तथा जिसके बायें भाग में "नवम एशियाई खेल" और दायें भाग में "NINTH ASIAN GAMES" अंकित होगा। "DELHI" शब्द और "1982" वर्ष प्रतीक के नीचे दर्शाया जाएगा।

पच्चीस पैसे :

मुख्य भाग:—सिक्के के मुख्यभाग पर अशोक स्तंभ का सिंह गुम्बज होगा जिसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" और दायें ऊपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "25" अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा तथा जिसके बायें निचले भाग में "पैसे" शब्द और दायें निचले भाग में "PAISE" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग:—सिक्के के इस भाग पर "IX ASIAN GAMES DELHI, 1982" अंकित होगा। सिक्के के मध्य में नवम एशियाई खेल,

1982 का प्रतीक अर्थात् "जतर मंजर" संस्मारक का रूपण होगा जिसके साथ एशियाई खेल के प्रतीक के रूप में सूर्य, संप्रतीक के ऊपर अंकित होगा तथा जिसके बायें भाग में "नवम एशियाई खेल" और दायें भाग में "NINTH ASIAN GAMES" अंकित होगा। "DELHI" शब्द और "1982" वर्ष प्रतीक के नीचे दर्शाया जाएगा।

दस पैसे :

मुख्यभाग:—सिक्के के मुख्यभाग पर अशोक स्तंभ का सिंह गुम्बज होगा जिसके बायें ऊपरी भाग में "भारत" और दायें ऊपरी भाग में "INDIA" शब्द अंकित होगा। उस पर अंकित मूल्य "10" अंतरराष्ट्रीय अंकों में लिखा होगा तथा जिसके बायें निचले भाग में "पैसे" शब्द और दायें निचले भाग में "PAISE" शब्द अंकित होगा।

पृष्ठ भाग:—सिक्के के इस भाग पर "IX ASIAN GAMES DELHI, 1982" अंकित होगा। सिक्के के मध्य में नवम एशियाई खेल, 1982 का प्रतीक अर्थात् "जतर मंजर" संस्मारक का रूपण होगा जिसके साथ एशियाई खेल के प्रतीक के रूप में सूर्य, संप्रतीक के ऊपर अंकित होगा तथा जिसके बायें भाग में "नवम एशियाई खेल" और दायें भाग में "NINTH ASIAN GAMES" अंकित होगा। "DELHI" शब्द और "1982" वर्ष प्रतीक के नीचे दर्शाया जाएगा।

[सं० एक०-1/28 (II)/79-वित्त,यत्न]
सी०जी० पथरोज, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th October, 1982.

S.O. 725(E).— In exercise of the powers conferred by section 6 of the Coinage Act, 1906 (3 of 1906), the Central Government hereby determines that—

(a) the coins of the following denominations shall also be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government in commemoration of the IX Asian Games Delhi 1982, namely :—

- (i) One Hundred Rupees,
- (ii) Ten Rupees,
- (iii) Twenty-five paise,
- (iv) Ten paise;

(b) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely :—

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
One Hundred Rupees	Circular 44 millimetre	200	Quaternary Silver 50 % Copper 40 % Nickel 5 % Zinc 5 %
Ten Rupees	Circular 39 millimetre	180	Cupro Nickel Copper 75 % Nickel 25 %
Twenty-five Paise	Circular 19 millimetre	100	Cupro Nickel Copper 75 % Nickel 25 %
Ten Paise	Scalloped (12 scallops) 25 millimetre across scallop		Aluminium Magnesium Magnesium 3.5% to 4 % Aluminium remainder.

Designs :**One hundred Rupees :**

Obverse : This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar, with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "100" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "Rupees".

Reverse : This face of the coin shall have the theme "IX ASIAN GAMES DELHI 1982". In the centre of the coin there shall be the emblem of IX Asian Games 1982, namely, a representation of the "JANTAR MANTAR" monument, with the sun representing the Asian Games Symbol over the emblem flanked on the left periphery with the inscription "नवम एशियाई खेल" and on the right periphery with the inscription "IX ASIAN GAMES". The word "DELHI" and the year "1982" shall be shown below the emblem.

Ten Rupees :

Obverse : This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar with the legend "सत्यमेव जयते" inscribed below, flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "10" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "रुपये" and on the right lower periphery with the word "RUPEES".

Reverse : This face of the coin shall have the theme "IX ASIAN GAMES DELHI 1982". In the centre of the coin there shall be the emblem of IX Asian Games 1982, namely, a representation of the "JANTAR MANTAR" monument with the sun representing the Asian Games Symbol over the emblem flanked on the left periphery with the inscription "नवम एशियाई खेल" and on the right periphery with the inscription "IX ASIAN GAMES". The word "DELHI" and the year "1982" shall be shown below the emblem.

Twenty five Paise :

Obverse : This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "25" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" and on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse : This face of the coin shall have the theme "IX ASIAN GAMES DELHI 1982". In the centre of the coin there shall be the emblem of IX Asian Games 1982, namely, a representation of the "JANTAR MANTAR" monument with the sun representing the Asian Games Symbol over the emblem flanked on the left periphery with the inscription "नवम एशियाई खेल" and on the right periphery with the inscription "IX ASIAN GAMES". The word "DELHI" and the year "1982" shall be shown below the emblem.

Ten Paise :

Obverse : This face of the coin shall bear the Lion Capital of Ashoka Pillar flanked on the left upper periphery with the word "भारत" and on the right upper periphery with the word "INDIA". It shall also bear the denominational value "10" in international numerals flanked on the left lower periphery with the word "पैसे" and on the right lower periphery with the word "PAISE".

Reverse : This face of the coin shall have the theme "IX ASIAN GAMES DELHI 1982". In the centre of the coin there shall be the emblem of IX Asian Games 1982, namely, a representation of the "JANTAR MANTAR" monument with the sun representing the Asian Games Symbol over the emblem flanked on the left periphery with the inscription "नवम एशियाई खेल" and on the right periphery with the inscription "IX ASIAN GAMES". The word "DELHI" and the year "1982" shall be shown below the emblem.

[No. F. 1/28 (II)/79-Coin]
C. G. PATHROSE, Under Secy.

